



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 569]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1981/पौष 7, 1903

No. 569]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1981/PAUSA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 दिसम्बर, 1981

का०भा० 917(अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखने) नियम, 1958 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखने) तीसरा सशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखने) नियम, 1958 की अनुसूची में "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् —

"10 महानिदेशालय रक्षा भूमि और छावनियाँ महानिदेशक

उपमहानिदेशक।

[सं० 23/5/81—मन्त्रिक]

के० एन० भसोत, संयुक्त सचिव

टिप्पण मूल नियम निम्नलिखित द्वारा सशोधित किए गए हैं देखिए—

(i) का०भा० सं० 3406, तारीख 24-10-1970

(ii) का०भा० सं० 1270 तारीख 27-3-1971

(iii) का०भा० सं० 1271, तारीख 27-3-1971

(iv) का०भा० सं० 1521, तारीख 10-4-1971

(v) का०भा० सं० 1668 तारीख 24-4-1971

(vi) का०भा० सं० 2996, तारीख 11-8-1971

(vii) का०भा० सं० 5079 तारीख 3-11-1971

(viii) का०भा० सं० 5239, तारीख 23-11-1971

(ix) का०भा० सं० 5252, तारीख 29-11-1971

(x) का०भा० सं० 5594, तारीख 30-12-1971

(xi) का०भा० सं० 210(ई) तारीख 18-3-1972

(xii) का०भा० सं० 299(ई) तारीख 18-4-1972

(xiii) का०भा० सं० 327(ई) तारीख 29-4-1972

(xiv) का०भा० सं० 513(ई) तारीख 31-7-1972

(xv) का०भा० सं० 568(ई) तारीख 30-8-1972

(xvi) का०भा० सं० 716(ई) तारीख 18-11-1972

(xvii) का०भा० सं० 23(ई) तारीख 17-1-1973

(xviii) का०भा० सं० 507(ई) तारीख 19-9-1973

(xix) का०भा० सं० 519(ई) तारीख 26-9-1973

(xx) का०भा० सं० 552(ई) तारीख 19-10-1973

(xxi) का०भा० सं० 724(ई) तारीख 1-12-1973

(xxii) का०भा० सं० 263(ई) तारीख 26-4-1974

(xxiii) का०भा० सं० 321(ई) तारीख 24-5-1974

(xxiv) का०भा० सं० 265(ई) तारीख 18-6-1975

(xxv) का०भा० सं० 140(ई) तारीख 25-2-1976

(xxvi) का०भा० सं० 195(ई) तारीख 15-3-1976

(xxvii) का०भा० सं० 348(ई) तारीख 14-5-1976

(xxviii) का०भा० सं० 480(ई) तारीख 19-7-1976

- (xxix) कां०सं० 493(ई) तारीख 24-7-1976  
 (xxx) कां०सं० 599(ई) तारीख 6-9-1976  
 (xxxii) कां०सं० 698(ई) तारीख 30-10-1976  
 (xxxiii) कां०सं० 228(ई) तारीख 10-3-1977  
 (xxxiv) कां०सं० 255(ई) तारीख 24-3-1977  
 (xxxv) कां०सं० 408(ई) तारीख 23-6-1977  
 (xxxvi) कां०सं० 603(ई) तारीख 2-8-1977  
 (xxxvii) कां०सं० 649(ई) तारीख 3-9-1977  
 (xxxviii) कां०सं० 320(ई) तारीख 12-5-1978  
 (xxxix) कां०सं० 419(ई) तारीख 30-6-1978  
 (xxxx) कां०सं० 2914 तारीख 7-10-1978  
 (xxxxi) कां०सं० 598 तारीख 19-10-1978  
 (xxxxii) कां०सं० 576 तारीख 17-2-1979  
 (xxxxiii) कां०सं० 1020 तारीख 24-3-1979  
 (xxxxiv) कां०सं० 338(ई) तारीख 7-6-1979  
 (xxxxv) कां०सं० 3569 तारीख 27-10-1979  
 (xxxxvi) कां०सं० 852(ई) तारीख 18-12-1979  
 (xxxxvii) कां०सं० 245(ई) तारीख 11-4-1980  
 (xxxxviii) कां०सं० 543(ई) तारीख 7-8-1981  
 (xxxxix) कां०सं० 768(ई) तारीख 22-10-1981

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi the 28th December, 1981

S.O. 917 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1 (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Third Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading "MINISTRY OF DEFENCE" for Serial No. 10 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:—

"10. Directorate General, Defence Lands & Cantonments.  
 Director General/  
 Deputy Director General"

[No. 23/5/81—Public  
 K. N. BHANOT Joint Secy.

Note: The principal Rules have been amended vide:—

- (i) S. O. No. 3406 dated 24-10-1970  
 (ii) S. O. No. 1270 dated 27-3-1971  
 (iii) S. O. No. 1271 dated 27-3-1971  
 (iv) S. O. No. 1521 dated 10-4-1971  
 (v) S. O. No. 1658 dated 24-4-1971  
 (vi) S. O. No. 2996 dated 11-8-1971  
 (vii) S. O. No. 5079 dated 3-11-1971  
 (viii) S. O. No. 5239 dated 23-11-1971  
 (ix) S. O. No. 5252 dated 29-11-1971  
 (x) S. O. No. 5594 dated 30-12-1971  
 (xi) S. O. No. 210(E) dated 18-3-1972  
 (xii) S. O. No. 299 (E) dated 18-4-1972  
 (xiii) S. O. No. 327(E) dated 29-4-1972  
 (xiv) S. O. No. 513 (E) dated 31-7-1972  
 (xv) S. O. No. 568 (E) dated 30-8-1972  
 (xvi) S. O. No. 716 (E) dated 18-11-1972  
 (xvii) S. O. No. 23 (E) dated 17-1-1973  
 (xviii) S. O. No. 507 (E) dated 19-9-1973  
 (xix) S. O. No. 519 (E) dated 26-9-1973  
 (xx) S. O. No. 552 (E) dated 19-10-1973  
 (xxi) S. O. No. 724 (E) dated 1-12-1973  
 (xxii) S. O. No. 263 (E) dated 26-4-1974  
 (xxiii) S. O. No. 321 (E) dated 24-5-1974  
 (xxiv) S. O. No. 265 (E) dated 18-5-1975  
 (xxv) S. O. No. 140 (E) dated 25-2-1975  
 (xxvi) S. O. No. 195 (E) dated 15-3-1976  
 (xxvii) S. O. No. 343 (E) dated 14-5-1976  
 (xxviii) S. O. No. 430 (E) dated 19-7-1976  
 (xxix) S. O. No. 493 (E) dated 24-7-1976  
 (xxx) S. O. No. 599 (E) dated 6-9-1976  
 (xxxi) S. O. No. 698 (E) dated 30-10-1976  
 (xxxii) S. O. No. 19 (E) dated 12-1-1977  
 (xxxiii) S. O. No. 228 (E) dated 10-3-1977  
 (xxxiv) S. O. No. 255 (E) dated 24-3-1977  
 (xxxv) S. O. No. 438 (E) dated 23-6-1977  
 (xxxvi) S. O. No. 603 (E) dated 2-8-1977  
 (xxxvii) S. O. No. 649 (E) dated 3-9-1977  
 (xxxviii) S. O. No. 320 (E) dated 12-5-1978  
 (xxxix) S. O. No. 419 (E) dated 30-6-1978  
 (xxxx) S. O. No. 2914 dated 7-10-1978  
 (xxxxi) S. O. No. 598 (E) dated 19-10-1978  
 (xxxxii) S. O. No. 576 dated 17-2-1979  
 (xxxxiii) S. O. No. 1020 dated 24-3-1979  
 (xxxxiv) S. O. No. 338 (E) dated 7-6-1979  
 (xxxxv) S. O. No. 3569 dated 27-10-1979  
 (xxxxvi) S. O. No. 852 (E) dated 18-12-1979  
 (xxxxvii) S. O. No. 245 (E) dated 11-4-1980  
 (xxxxviii) S. O. No. 543 (E) dated 7-8-1981  
 (xxxxiv) S. O. No. 768 (E) dated 22-10-1981